



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण


EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 363]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 17, 2002/चैत्र 27, 1924

No. 363]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 17, 2002/CHAITRA 27, 1924

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 17 अप्रैल, 2002

का. आ. 435(अ).—यतः अध्यक्ष, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड ने तारीख 10 जनवरी, 2002 के अपने आदेश द्वारा, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 4 की उप-धारा (3) के साथ पठित प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम की धारा 8 की उप-धारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पारित, सभी स्टॉक एक्सचेंजों को स्टॉक एक्सचेंजों के प्रबंधन से स्वामित्व तथा व्यापारिक सदस्यता को पुथक् करने के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा लिए गए नीतिगत विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिए दो मास की कालावधि के भीतर उनके नियमों, अनुच्छेदों इत्यादि को संशोधित करने का निदेश दिया था; और

यतः जयपुर स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड उक्त आदेश की अनुपालना उसमें नियत समय के भीतर करने में असफल रहा है।

अब, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 8 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड एतद्वारा जयपुर स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड के संगम-अनुच्छेद में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

अनुच्छेद 74 में,

(i) खण्ड (क) में, निम्नलिखित परंतुक परिवर्धित किया जाएगा :

“परंतु यह कि एक्सचेंज का कोई दलाल सदस्य एक्सचेंज का अध्यक्ष नहीं होगा।”

(ii) खण्ड (ग) में, निम्नलिखित परंतुक परिवर्धित किया जाएगा :

“परंतु यह कि एक्सचेंज का कोई दलाल सदस्य एक्सचेंज का उपाध्यक्ष नहीं होगा।”

(iii) खण्ड (ड) में, निम्नलिखित परंतुक परिवर्धित किया जाएगा :

“परंतु यह कि एक्सचेंज का कोई दलाल सदस्य एक्सचेंज का कोषाध्यक्ष नहीं होगा।”

[फा. सं. भाप्रविबो/विधि/6213/02]

जी. एन. बाजपेयी, अध्यक्ष

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 17th April, 2002

S.O. 435(E).—Whereas the Chairman, Securities and Exchange Board of India vide his order dated January 10, 2002, passed in exercise of powers under sub-section (1) of Section 8 of the Securities Contracts (Regulation) Act read with sub-section (3) of Section 4 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992, had directed all stock exchanges to amend their Rules, Articles etc. within a period of two months to give effect to the policy decision taken by the Securities and Exchange Board of India and the Central Government to segregate ownership and trading membership from management of stock exchanges; and

Whereas Jaipur Stock Exchange Limited has failed to comply with the said order within the time stipulated therein,

Now, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 8 of Securities Contracts (Regulation) Act, 1956, the Securities and Exchange Board of India hereby makes the following amendments to the Articles of Association of Jaipur Stock Exchange Limited, namely :—

In Article 74,

- (i) in clause (a), the following proviso shall be added :

“Provided that no broker member of the exchange shall be the President of the exchange.”

- (ii) in clause (c), the following proviso shall be added :

“Provided that no broker member of the exchange shall be the Vice President of the exchange.”

- (iii) in clause (e), the following proviso shall be added

“Provided that no broker member of the exchange shall be the Treasurer of the exchange.”

[F. No. SEBI/LE/6213/02]

G. N. BAJPAI, Chairman